

TENDER DOCUMENT

**For On-Site comprehensive annual maintenance contract
for network of lightning detector(3 detector) for one year**

नवंबर /November 2025

**भारत सरकार/Government of India
अंतरिक्ष विभाग/Department of Space
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र/North Eastern Space Applications Centre
उमियम/ Umiam-793103,मेघालय/ Meghalaya**

भारत सरकार /Government of India
अंतरिक्ष विभाग /Department of Space
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र /North Eastern Space Applications Centre
उमियम /Umiam - 793103, मेघालय/ Meghalaya

फैक्स/Fax: 0364-2570043
फोन/Tel.: 0364-2570036
ईमेल/Email: purchase.nesac@nesac.gov.in

निविदा आमंत्रण सूचना/ NOTICE INVITING TENDER

निदेशक एनईसैक-, उमियम, मेघालय, प्रतिष्ठित ठेकेदारों फर्मों सेवा प्रदाताओं से निम्नलिखित के लिए दो बोली में मोहरबंद प्रस्तावों को , आमंत्रित करते हैं / Director, NESAC, Umiam, Meghalaya, India invites sealed offers in **two bids** from reputed Service Providers, Firms, Contractors etc for the following:

एनआईटी सं./ NIT No.	कार्य का नाम/ NAME OF THE WORK	इएमडी (₹) डीडी के रूप में/ EMD (₹) IN THE FORM OF DD	निविदा शुल्क/ TENDER FEE (₹)
NESAC/1844/2025	एक वर्ष के लिए बिजली डिटेक्टरों (3 डिटेक्टरों) के नेटवर्क के लिए साइट पर व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध /On site comprehensive annual maintenance contract for network of lightning detectors (3 detectors) for one year	₹ 40,000/-	₹ 500/-

निविदा दस्तावेजों के विक्रय का दिनांक/Dates for selling of tender documents : 17.11.2025 to 04.12.2025

निविदा दस्तावेजों को जमा करने की अन्तिम तिथि व समय/Last date & Time for submission of tender documents : 04.12.2025 upto 13:00 Hrs.

निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान/Date, Time & Venue of Bid Opening : 04.12.2025. at 15:30 Hrs at एनईसैक, उमियम/ NESAC, Umiam

निविदाकारों को निर्देश/Instructions to Tenderers:

- पूर्ण विवरण और नियम एवं शर्तों आदि के लिए कृपया संलग्नक अनुलग्नक देखें।/For full details and terms and conditions etc., please see the enclosed Annexures
- निविदा दस्तावेज क्रय अधिकारी, एनईसैक, उमियम से प्राप्त किए जा सकते हैं।/Tender documents can be obtained from the Purchase Officer, NESAC, Umiam.
- निविदा शुल्क का भुगतान केवल क्रॉसड डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक, उमियम (शाखा कोड 2010) पर निदेशक, एनईसैक के नाम पर होना चाहिए। निविदा शुल्क नॉन-रिफंडेबल है। निविदा शुल्क के साथ आपका अनुरोध पत्र उपरोक्त अनुसार क्रय अधिकारी को संबोधित किया जा सकता है।/Tender Fee shall be paid in form of CROSSED Demand Draft only. The Demand Draft should be in favor of Director, NESAC drawn on State Bank of India, Umiam (branch Code 2010). The Tender Fee is NON-REFUNDABLE. Your request letter along with Tender Fee maybe addressed to the Purchase Officer as indicated above.
- इच्छुक निविदाकार, अपने विकल्प पर, एनईसैक वेबसाइट www.nesac.gov.in से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं और निविदा अधिसूचना में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित निविदा शुल्क के साथ निविदा दस्तावेज जमा कर सकते हैं।/Interested tenderers may, at their option, download the tender documents from the NESAC website www.nesac.gov.in and submit the Tender Document along with the prescribed tender fee as per details given in the tender notification.
- निविदा दस्तावेजों के लिए अनुरोध करते समय, कृपय कवर पर निविदा सूचना संख्या..... के समक्ष "निविदा दस्तावेजों के लिए अनुरोध लिखें"। /While requesting for Tender Documents, please super scribe on the cover as "Request for Tender document against **Tender Notice No. NESAC/1844/2025.**
- नियत तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा।/Tender Document received after the due date/time will not be considered.
- सीलबंद कोटेशन/प्रस्ताव भेजते समय लिफाफे पर संबंधित निविदा संख्या और देय तिथि अंकित करें।/While sending sealed quotation/offer superscribed respective Tender Number and Due Date on the envelope.
- एनईसैक, उमियम किसी भी डाक विलंब/पारगमन में दस्तावेजों के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है।/NESAC, UMIAM is not responsible for any postal delays/loss of documents in transit.
- यदि निविदाएं जमा करने/खोलने के लिए निर्दिष्ट तिथि को अचानक छुट्टी घोषित कर दी जाती है, तो ऐसे मामलों में निविदाएं जमा करने/खोलने की नियत तारीख स्वचालित रूप से अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित कर दी जाएगी।/If the date specified for submission/opening of tenders is declared as a holiday abruptly, the due date for submission/opening of the tenders in such cases shall be postponed automatically to the next working day.
- निदेशक, एनईसैक के पास किसी/या सभी कोटेशन/रुचि की अभिव्यक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।/Director, NESAC reserves the right to accept or reject any/or all the quotations/Expression of Interest in part or full.
- निविदा दस्तावेजों का हिस्सा बनने वाले सभी पृष्ठों पर विधिवत हस्ताक्षर, मुहर लगी होनी चाहिए और एनईसैक को जमा किया जाना चाहिए। जिन पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मोहर नहीं लगी है उन्हें अवैध माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।/All pages forming part of the tender documents should be duly signed, stamped and submitted to NESAC. Pages not signed and stamped will be considered invalid and rejected.

दिनांक/Date:

हस्ता/Sd/-
निदेशक, एनईसैक/ Director NESAC

उत्तर-पूर्वीअंतरिक्षउपयोगकेंद्र/North Eastern Space Applications Centre
उमियम/Umiyam-793103, मेघालय/Meghalaya

Report ID: GEM/GARPTS/27082025/TP1S9T5GM7PZ

निविदा सं./Tender No. : NESAC/1844/2025

संदर्भ सं./Ref No. :

दिनांक/Date :

PRICE BID

प्रपत्र/From

.....
.....

सेवा मे/To,

क्रय अधिकारी /Purchase Officer
I/C Purchase & Stores Division
एनई-सैक/NESAC, उमियाम/Umiyam

श्रीमान/Dear Sir,

मैं/हम इसके साथ/नीचे विस्तृत दुकानों को नीचे उद्धृत मूल्य पर आपूर्ति करने की पेशकश करते हैं और इस पेशकश को तक खुला रखने के लिए सहमत हैं। मैं/हम अंतिम उल्लिखित तिथि की समाप्ति पर या उससे पहले खरीद आदेश के जारी होने पर उसकी स्वीकृति की सूचना देते हुए प्रस्तावित भंडारों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे। आपको ऐसी भंडारों की किसी एक या अधिक वस्तुओं के किसी भी हिस्से के लिए निविदा में प्रस्तुत किसी एक या अधिक वस्तुओं को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। मैं/हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि इस निविदा में प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है, आपको ऐसी वस्तुओं और एक या अधिक वस्तुओं के ऐसे हिस्से या भागों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य किया जाएगा जैसा कि स्वीकृति को सूचित करने वाले उक्त खरीद आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। I/We hereby offer to supply the stores detailed herewith/below at the price hereunder quoted and agree to hold this offer open till I/We shall be bound to supply the stores hereby offered on the issue of the Purchase Order communicating the acceptance thereof on or before the expiry of the last mentioned date. You have the liberty to accept any one or more of the items of stores tendered for any portion of any one or more of items of such stores. I/We notwithstanding that the offer in this tender has not been accepted in whole, shall be bound to supply to you such items and such portion or portions of one or more of the items as may be specified in the said Purchase Order communicating the acceptance.

Sl No	Items	Quantity/ unit	Rate per Unit (₹)	Taxes (GST)		Total Amount including taxes (₹)
				%	GST Per unit	
1	एक वर्ष के लिए बिजली डिटेक्टरों (3 डिटेक्टरों) के नेटवर्क के लिए साइट पर व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध /On site comprehensive annual maintenance contract for network of lightning detectors (3 detectors) for one year	One set with 3 detectors				

टिप्पणी/Note: सभी दरें अंकों और शब्दों दोनों में दी जानी चाहिए /All the rates should be given both in figures and words

वितरणकास्थान / Place of delivery:	F.O.R. NESAC, Umiyam
Date by which the ordered item/s will be supplied	

मैंने/हमने अनुबंध के नियमों और शर्तों और निविदा आमंत्रण के साथ संलग्न निविदाकारों के निर्देशों को समझ लिया है और यहां उद्धृत या पसंदीदा विनिर्देश/ड्राइंग और/या पैटर्न की पूरी तरह से जांच कर ली है और/या आवश्यक भंडारों की प्रकृति से पूरी तरह परिचित हैं और मेरा/हमारा प्रस्ताव पूरी तरह से या आंशिक रूप से इस निविदा की स्वीकृति की सूचना देने वाले खरीद आदेशों में निहित नियमों और शर्तों के अधीन आवश्यकताओं के अनुसार सख्ती से दुकानों की आपूर्ति करने का है। I/We have understood the terms and conditions of the contract and the instructions of tenderers annexed to the invitation to tender and have thoroughly examined the specification/drawing and/or pattern quoted or preferred to herein and/or fully aware of the nature of stores required and my/or offer is to supply the stores strictly in accordance with the requirements subject to the terms and conditions contained in the purchase orders communicating the acceptance of this tender either in whole or in part.

Date:

निविदाकार के मुहर व हस्ताक्षर
Seal and Signature of the Tenderer